

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप ने अपने नवीनतम मासिक बुलेटिन में कहा कि विश्व स्तर पर रिफाईंड तांबे के बाजार में सितंबर में 85,000 टन की कमी की तुलना में अक्टूबर में 46,000 टन अधिशेष देखा गया।
- इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा कि उनका देश जून 2023 से एल्युमीनियम के मुख्य स्रोत बॉक्साइट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा।
- इंटरनेशनल एल्युमीनियम इंस्टीट्यूट के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर में वैश्विक प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन साल दर साल 3.8% बढ़कर 5.611 मिलियन टन हो गया।
- बांग्लादेश ने सरकार से सरकार के बीच हुए सौदे के तहत 2.5 लाख टन उबले हुए चावल आयात करने के लिए भारतीय सहकारी समितियों को 40 डॉलर प्रति टन से अधिक की पेशकश की है।
- अमेरिकी फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने दरों में इस साल

- क्रमशः 4.25 प्रतिशत, 3.25 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत की वृद्धि की है।
- भारत के बाजार नियामक ने 20 दिसंबर, 2023 तक गेहूं, धान और कच्चे पाम तेल कमोडिटीज के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में व्यापार के निलंबन को बढ़ा दिया।
- सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार, अप्रैल से नवंबर के बीच भारत से ऑयलमील के निर्यात में वार्षिक आधार पर 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, और इस वित्तीय वर्ष में 2.39 मिलियन टन तक पहुंच गया है।
- सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अधिक बुवाई क्षेत्र के कारण मौजूदा रबी सीजन में गेहूं का रकबा 3 फीसदी बढ़कर 278.25 लाख हेक्टेयर हो गया है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के अनुसार कृषि-खाद्य उत्पादों का निर्यात 2015-16 में 29.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 46.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	16.12.22	22.12.22	बदलाव (%)
हल्दी	7546.00	8594.00	13.89%
जीरा	26980.00	29375.00	8.88%
धान	4128.00	4298.00	4.12%
सीसेम सीड	16615.00	16990.00	2.26%
गुड़	1146.50	1165.00	1.61%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	16.12.22	22.12.22	बदलाव (%)
धनिया	8706.00	8160.00	-6.27%
कैस्टरसीड	7404.00	7188.00	-2.92%
कॉटन	31400.00	30530.00	-2.77%
बाजरा	2131.00	2080.00	-2.39%
संजीव	47040.00	46350.00	-1.47%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	16.12.22	22.12.22	बदलाव (%)
कच्चा तेल	6165.00	6435.00	4.38%
लेड	185.00	187.65	1.43%
तांबा	702.45	712.30	1.40%
सोना गिनी	43553.00	43742.00	0.43%
सोना	54300.00	54521.00	0.41%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	16.12.22	22.12.22	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	546.40	428.10	-21.65%
कॉटन	30540.00	29510.00	-3.37%
निकल	2402.50	2360.00	-1.77%
मेंथा ऑयल	999.40	985.60	-1.38%
एल्युमीनियम	209.80	207.75	-0.98%

साप्ताहिक समीक्षा

वर्ष के अंत से पहले कमोडिटीज की कीमतों में बढ़त जारी रही। सीआरबी इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ 300 के नजदीक बंद हुआ। जापानी येन में बढ़त ने डॉलर इंडेक्स में रिकवरी पर रोक लगा दिया और यह फिर से 104 के स्तर से नीचे लुढ़क गया। इसने कमोडिटीज की कीमतों को अधिक मजबूत किया। सुरक्षित निवेश के विकल्प के तौर पर खरीददारी के लौटने से सराफा काउंटर में फिर से चमक बढ़ गई। एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 55000 के स्तर को पार कर गई जबकि चांदी की कीमतें एमसीएक्स पर 70000 के स्तर को पार कर गई। लेकिन बाद में कुछ मुनाफावसूली हुई। लंबे समय तक स्थिर रहने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दर्ज की गई जबकि नेचुरल गैस में की कीमतों में अधिक गिरावट आई। अमेरिका में कच्चे तेल, हीटिंग ऑयल और जेट फ्यूल के स्टॉक के कम होने के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में ठंड का प्रकोप बढ़ने और छुट्टियों के मौसम में यात्राओं में बढ़ोतरी होने के कारण गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतों में लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी हुई। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिकी कच्चे तेल का भंडार विश्लेषकों के अनुमान से अधिक कम हो गया है, और 16 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 5.89 मिलियन बैरल की गिरावट दर्ज की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में ठंड का प्रकोप बढ़ने से हीटिंग ऑयल की मांग में बढ़ोतरी होने से भंडार में गिरावट हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास से दक्षिण तक फ्लोरिडा और पूर्वी राज्यों में शून्य तापमान वाली ठंडी हवा चलने की उम्मीद है। बेस मेटल में लेड और जिंक की कीमतों के बीच स्प्रेड कम हो गया है क्योंकि उच्च स्तर से मुनाफावसूली के कारण जिंक की कीमतें गिरावट के साथ बंद हुई, लेकिन इस बीच लेड की कीमतों में तेजी आई। तांबे की कीमतों में वृद्धि हुई और यह 720 के करीब बंद हुआ, लेकिन प्रीमियम में गिरावट के कारण एल्युमीनियम की कीमतों में गिरावट हुई और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को नजरअंदाज कर दिया। तांबा और एल्युमीनियम सहित धातुओं के लिए सीमित वैश्विक स्टॉक और उत्पादन में संभावित कठौती की खबरों ने भी बाजार के सेंटिमेंट को मजबूत किया है। इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप ने अपने नवीनतम मासिक बुलेटिन में कहा कि विश्व स्तर पर रिफाईंड तांबे के बाजार में सितंबर में 85,000 टन की कमी की तुलना में अक्टूबर में 46,000 टन अधिशेष देखा गया।

कृषि कमोडिटीज में, उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली के कारण अरंडी, कॉटनऑयलसीडकेक, ग्वार, मेंथा और अन्य कमोडिटीज में तेज गिरावट देखी गई। केवल मसाला की कीमतों में जबरदस्त तेजी जारी रही है। होरेका सेगमेंट के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा उद्योग से मांग बढ़ने के कारण मसाला मिलें सक्रिय हैं। भारत में कोविड-19 के फिर से उभरने के डर से स्वास्थ्य सेवा उद्योग में हल्दी की मांग बढ़ने की संभावना है क्योंकि इसका उपयोग प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में किया जाता है। वर्ष 2022 में निर्यात मांग अच्छी रही है क्योंकि भारत ने जनवरी 22-अक्टूबर 22 के दौरान लगभग 99 हजार टन हल्दी का निर्यात किया था जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 89 हजार टन हुआ था। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति की कमी के कारण जीरा की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण भी कीमतों की तेजी को मदद मिली रही है। हाजिर बाजार में कमजोर मांग के कारण धनिया कीमतों में गिरावट हुई। हाजिर बाजार में सुस्त मांग के कारण ग्वार की कीमतों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। निर्यात मांग में कमी के कारण अरंडी की कीमतों में गिरावट आई है। जनवरी के बाद अरंडी की नई फसल शुरू होने के मद्देनजर मिलें थोक खरीद से परहेज कर रही हैं।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	16.12.22	22.12.22	(%)
जौ	जयपुर	3100.00	3075.00	-0.81%
चना	दिल्ली	5156.05	5140.35	-0.30%
धनिया	कोटा	8768.15	8521.90	-2.81%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	853.10	855.00	0.22%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1145.00	1158.00	1.14%
ग्वारसीड	जोधपुर	5930.00	5841.00	-1.50%
ग्वारगम	जोधपुर	12532.00	12341.00	-1.52%
जीरा	ऊंझा	26657.40	28177.90	5.70%
सरसों	जयपुर	6674.85	6721.85	0.70%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1240.00	1297.50	4.64%
सोयाबीन	इंदौर	5655.95	5675.50	0.35%
हल्दी	निजामाबाद	7364.35	7459.15	1.29%
गेहूं	दिल्ली	2894.65	2925.00	1.05%
कॉटन	कडी	31552.30	30357.15	-3.79%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2950.10	2988.35	1.30%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	16.12.22	22.12.22	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2375.00	2406.00	1.31%
तांबा	LME	नकद	8266.50	8310.50	0.53%
लेड	LME	नकद	2151.50	2216.50	3.02%
निकल	LME	नकद	28273.00	29240.00	3.42%
जिंक	LME	नकद	3018.00	2948.00	-2.32%
सोना	COMEX	जनवरी	1793.50	1788.50	-0.28%
चांदी	COMEX	जनवरी	23.16	23.49	1.42%
लाइट क्रूड	NYMEX	फरवरी	74.29	77.49	4.31%
नेचुरल गैस	NYMEX	जनवरी	6.60	5.00	-24.24%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	16.12.22	22.12.22	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	मार्च	14.83	14.72	-0.74%
सोया तेल	CBOT	मार्च	61.89	63.09	1.94%
कॉटन	ICE	मार्च	80.95	81.03	0.10%
सीपीओ	BMD	मार्च	3,918.00	3,898.00	-0.51%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	15.12.22 क्वांटिटी	22.12.22 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	881	881	0
कैस्टर सीड	मी.टन	0	0	0
चना	मी.टन	14468	17020	2552
धनिया	मी.टन	2985	3409	424
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	0	0	0
ग्वारगम	मी.टन	14343	14376	33
ग्वारसीड	मी.टन	8409	8646	237
जीरा	मी.टन	2869	2938	69
मक्का	मी.टन	1223	215	-1008
सोयाबीन	मी.टन	0	0	0
हल्दी	मी.टन	438	438	0

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	16.12.22 क्वांटिटी	22.12.22 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	1880	1994	114
तांबा	मी.टन	2688795	2524451	-164344
सोना	किग्रा	472	472	0
सोना मिनी	किग्रा	13472	13472	0
सोना गिनी	किग्रा	140900	115900	-25000
लेड	किग्रा	413	413	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	167573	171694	4121
चांदी एम	किग्रा	40936	40935	-1
जिंक	मी.टन	2176	2236	60

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 16.12.22	स्टॉक की स्थिति 22.12.22	अंतर
एल्युमीनियम	483850	481175	-2675.00
तांबा	83725	81350	-2375.00
निकल	53958	54216	258.00
लेड	24350	24350	0.00
जिंक	36575	36450	-125.00



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	जनवरी	28675.00	29.11.22	तेजी	24600.00	27100.00	-	27000.00
NCDEX	हल्दी	जनवरी	8644.00	13.12.22	तेजी	7900.00	8100.00	-	8000.00
NCDEX	ग्वारसीड	जनवरी	5804.00	10.11.22	तेजी	5183.00	5630.00	-	5600.00
NCDEX	कैस्टरसीड	जनवरी	7182.00	12.12.22	मंदी	7500.00	-	7560.00	7600.00
NCDEX	स्टील लांग	जनवरी	46210.00	25.08.2022	मंदी	50200.00	-	47550.00	47600.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	जनवरी	2762.00	03.10.22	तेजी	2300.00	2620.00	-	2600.00
MCX	मेंथा ऑयल	जनवरी	1010.30	14.12.22	तेजी	995.00	963.00	-	960.00
MCX	बुलडेक्स	जनवरी	15415.00	10.11.22	तेजी	14545.00	14850.00	-	14800.00
MCX	चांदी	मार्च	69709.00	10.11.22	तेजी	61911.00	66550.00	-	66500.00
MCX	सोना	फरवरी	55071.00	10.11.22	तेजी	52109.00	53600.00	-	53500.00
MCX	मेटलडेक्स	जनवरी	18093.00	23.06.22	साइडवेज	1796.30	17500.00	18700.00	-
MCX	तांबा	जनवरी	707.90	15.12.22	मंदी	702.00	-	719.00	720.00
MCX	लेड	जनवरी	188.95	15.12.22	साइडवेज	185.50	183.00	193.00	-
MCX	जिंक	जनवरी	271.45	14.12.22	मंदी	286.00	-	295.00	296.00
MCX	एल्युमिनियम	जनवरी	209.30	14.12.22	मंदी	212.00	-	218.50	220.00
MCX	कच्चा तेल	जनवरी	6506.00	14.11.22	मंदी	7250.00	-	6950.00	7000.00
MCX	नेचुरल गैस	जनवरी	443.80	19.12.22	मंदी	480.00	-	525.00	530.00

*22/12/2022 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

कच्चा तेल (जनवरी) एमसीएक्स



कच्चा तेल (जनवरी) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 6793.00

निचला स्तर: 5901.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (जनवरी) कॉन्ट्रैक्ट 21 दिसम्बर 2022 को 6506.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6404.86 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 54.369 है। दोनों ही इंडिकेटर खरददारी का संकेत दे रहे हैं।

6300.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 6750.00 रु के टारगेट के लिए 64200.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

जीरा (जनवरी) एनसीडीईएक्स



जीरा (जनवरी) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 29200.00

निचला स्तर: 24920.00

एनसीडीईएक्स में जीरा (जनवरी) कॉन्ट्रैक्ट 21 दिसम्बर 2022 को 28675.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 27079.00 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 77.232 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

27800.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 30000.00 रु के टारगेट के लिए 28500.00 रु के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

तांबा (जनवरी) एमसीएक्स



तांबा (जनवरी) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 719.25

निचला स्तर: 689.70

एमसीएक्स में तांबा (जनवरी) कॉन्ट्रैक्ट 21 दिसम्बर 2022 को 707.90 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 702.66 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 58.106 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

720.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 690.00 रु के टारगेट के लिए 710.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

सक्रिय खरीदारी के कारण हल्दी की कीमतों के तेजी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। हॉरिका सेगमेंट से मांग बढ़ने से मसाला मिलें खरीदारी में अच्छी दिलचस्पी दिखा रही हैं। भारत में कोविड-19 के फिर से उभरने की बढ़ती आशंका के साथ स्वास्थ्य देखभाल उद्योग की ओर से मांग बढ़ने की संभावना है क्योंकि इसका उपयोग कोविड के खिलाफ प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में किया जाता है। मजबूत निर्यात मांग और कमजोर उत्पादन अनुमान से हल्दी के लिए बाजार का सेंटीमेंट मजबूत रहने की संभावना है। वर्ष 2022 में निर्यात मांग अच्छी रही है क्योंकि भारत ने जनवरी 22-अक्टूबर 22 के दौरान लगभग 99 हजार टन हल्दी का निर्यात किया था जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में 89 हजार टन हुआ था। आवक में कमी आई है और दिसंबर 22 में अब तक लगभग 6.3 हजार टन हल्दी की आवक दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष के 14 हजार टन आवक हुई थी। हल्दी वायदा(अप्रैल) की कीमतों के 8200-9000 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।

बाजारों में आपूर्ति में कमी के कारण जीरा (जनवरी)वायदा की कीमतों में लगातार चौथे सप्ताह तेजी बरकरार रही। लेकिन अब कुछ मुनाफावसूली देखी जा सकती है क्योंकि कीमतों में तेजी से बढ़त के बाद स्टॉकियों ने अपना स्टॉक जारी करना शुरू कर दिया है। अधिक कीमतों के कारण छोटे खरीदार थोक खरीद से दूर हैं। लेकिन जीरा के कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण मुख्य रुझान तेजी का है। 19 दिसंबर 22 तक गुजरात में पिछले वर्ष के 2.61 लाख हेक्टेयर की तुलना में लगभग 2.74 लाख हेक्टेयर में जीरे की बुवाई की गई, जो साल-दर-साल 5% कम है। जीरा की कीमतों के 29800-31000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

हाजिर बाजार में कमजोर मांग के कारण धनिया (जनवरी) वायदा की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। धनिया के तहत उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की रिपोर्ट और सामान्य फसल प्रगति के कारण बेहतर उपज की संभावनाएं बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित करेंगी। वर्ष 2022 में 19 दिसंबर तक गुजरात में धनिया के तहत बुआई क्षेत्र में तेजी से उछाल आया, जो पिछले वर्ष के 1.18 लाख हेक्टेयर की तुलना में 2.18 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया, जो कि वर्ष-दर-वर्ष 84% अधिक है। बढ़ते आयात के कारण प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति पर्याप्त है जो खरीदारों को थोक खरीद से दूर रखे हुए है। भारत ने जनवरी 22-अक्टूबर-22 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के 4.89 हजार टन की तुलना में लगभग 22.01 हजार टन धनिया का आयात किया है। धनिया की कीमतों के 7750-8400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है

अन्य कमोडिटीज

कमजोर निर्यात मांग के कारण कॉटन (दिसंबर) की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। चीन में मंदी के बढ़ते डर और कोविड मामलों के फिर से उभरने से आने वाले दिनों में औद्योगिक मांग में कमी आने की संभावना है और इसका असर कीमतों पर दिखने की संभावना है। कोविड अवधि की कमी को भरपायी करने के लिए खरीदारों द्वारा जमा किए गए अधिक भंडार के कारण निर्यात ऑर्डर में गिरावट आई है। भारत में सूती धागे के बढ़े हुए आयात ने भी मांग की संभावनाओं को कम कर दिया क्योंकि मिलों ने उच्च घरेलू कीमत के कारण आयातित सूती धागे को तरजीह दी। कम आपूर्ति के कारण नुकसान सीमित होगा क्योंकि इस सीजन में कपास की आवक सामान्य से कम है क्योंकि किसान आने वाले भविष्य में बेहतर कीमत की उम्मीद में अपनी उपज जारी नहीं कर रहे हैं। कीमतों को 33500 पर रजिस्ट्रेंस के साथ 27000 तक गिरावट की उम्मीद है।

हाजिर बाजारों में सक्रिय मांग के कारण कॉटनसीडऑयल केक (जनवरी) वायदा की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। आपूर्ति की कमी के कारण हाजिर मांग अच्छी है क्योंकि किसान बेहतर कीमत संभावना की उम्मीद में कपास जारी नहीं कर रहे हैं। कॉटन सीडऑयल केक के कम उत्पादन के कारण स्टॉकियस्ट सक्रिय हैं जबकि कपास की आवक धीमी रही है। कीमतों के 2600 के स्तर पर सपोर्ट रहने की संभावना है और आने वाले सप्ताह में यह 3000 की ओर बढ़ सकती है।

ग्वारसीड (जनवरी) वायदा की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। कीमतों में जोरदार तेजी के बाद किसान अपना स्टॉक जारी कर रहे हैं जिससे निकट भविष्य में ग्वार की कीमतों में गिरावट आएगी। मंदी के बढ़ते डर से ग्वारगम की निर्यात मांग कम रहेगी जो कीमतों में कमजोरी के रूप में दिखाई देगी। लेकिन, चुरी और कोरमा की मांग अच्छी रही है, जिससे कीमतों में अत्यधिक नुकसान पर रोक लगेगी। निकट भविष्य में ग्वारसीड की कीमतों के 5600-6400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

मेंथा ऑयल (जनवरी) वायदा की कीमतों में नरमी के रुझान के साथ मिला-जुला कारोबार होने की संभावना है। क्योंकि बाजार में सीमित खरीदारी के कारण मुनाफावसूली आगे भी जारी रहने की संभावना है। चीन में आर्थिक गतिविधियों में मंदी के मद्देनजर मेंथॉल की निर्यात मांग धीमी होने की संभावना है जिससे कीमतों पर दबाव पड़ेगा। लेकिन, वर्ष 2022 में कम उत्पादन के कारण आपूर्ति कम रही है जिससे आवक की गति भी प्रभावित हुई है। कीमतों को 960 का समर्थन रहने की संभावना है और निकट भविष्य में कीमतें धीरे-धीरे 1030 तक बढ़ सकती हैं।

सुस्त निर्यात मांग के कारण अरंडी (जनवरी) की कीमतों में नरमी के साथ कारोबार होने की संभावना है। मंदी के बढ़ते डर और चीन में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों से अरंडी के तेल की निर्यात मांग कम रहने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप पेराई गतिविधियों में गिरावट आई है। जनवरी के बाद अरंडी की नई फसल शुरू होने के मद्देनजर मिलें थोक खरीद से बच रही हैं। हाजिर बाजार में आपूर्ति की कमी से कीमतों में बड़ी गिरावट पर रोक लगने की संभावना है। जनवरी के बाद अरंडी की नई फसल शुरू होने के कारण मिलें थोक खरीद से परहेज कर रही हैं। अरंडी की कीमतें 6900-7400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

सर्सीफा

सोने की कीमतों ने सकारात्मक रिटर्न दिया और 55000 के स्तर को पार कर लिया। लेकिन बाद में इसमें उच्च स्तर से मुनाफावसूली देखी गई। बैंक ऑफ जापान के आश्चर्यजनक नीतिगत बदलाव के बाद डॉलर में कमजोरी के बीच कीमतें एक सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। बैंक ऑफ जापान द्वारा अपने बॉन्ड यील्ड कंट्रोल प्रोग्राम में आश्चर्यजनक बदलाव के बाद येन चार महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में बेरोजगारी लाभों के लिए नए दावों में उम्मीद से कम वृद्धि हुई, जबकि तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ, जो पहले के अनुमानित 2.9% के मुकाबले बढ़कर 3.2% हो गया। फंड द्वारा दरें बढ़ाने और 2023 की शुरुआत में सुरक्षित कारोबार के रूप में इक्विटी से सोने में निवेश की उम्मीद के कारण सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन उतनी नहीं कि फंड 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। फंडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने कहा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक अगले साल फिर से दरों में अधिक बढ़ोतरी करेगा, भले ही अर्थव्यवस्था संभावित मंदी की ओर फिसल जाए। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस साल की तीसरी तिमाही में पूर्वानुमान से अधिक कम हो गई है। दुनिया में सोने के सबसे बड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड की होल्डिंग 913.88 टन हो गई। तकनीकी मोचें पर, कॉमेक्स में सोने की कीमतें छोटी अवधि में 1790 डॉलर के सपोर्ट स्तर के करीब कारोबार कर रही है, जबकि चार्ट संरचना के आधार पर ऐसा लगता है कि सोने में खरीदारी जारी रह सकती है जहां कीमतों को 1760 डॉलर के पास समर्थन रह सकता है और 1840 डॉलर के पास रजिस्ट्रेंस का सामना करना पड़ सकता है। चांदी की कीमतें उच्च उतार-चढ़ाव के साथ 22.100-24.500 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती है। एमसीएक्स पर खरीदारी जारी रह सकती है और सोने की कीमतें 53000-55600 के दायरे में कारोबार कर सकती है। चांदी की कीमतें 64500-71000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

कच्चे तेल की कीमतों में पिछले हफ्ते बढ़त दर्ज की गई और महीने में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। आधिकारिक अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में उम्मीद से तेज गिरावट के बीच अमेरिका में कड़ाके की ठंड के कारण हीटिंग ऑयल की मांग बढ़ने और छुट्टियों के मौसम में यात्राओं में बढ़ोतरी होने से कीमतों को मदद मिली। एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 16 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में 5.89 मिलियन बैरल की गिरावट दर्ज की गई जो अपेक्षा से कहीं अधिक थी। इसके अतिरिक्त, जारी किए गए आर्थिक आंकड़ों से पता चला है कि बेरोजगारी लाभ के लिए नए दावे दाखिल करने वाले अमेरिकियों की संख्या में पिछले सप्ताह अपेक्षा से कम वृद्धि हुई है, जबकि अर्थव्यवस्था में तीसरी तिमाही में पहले के अनुमान की तुलना में तेजी से सुधार हुआ है। यह आक्रामक मौद्रिक सख्ती के मुकाबले एक लचीली अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है, और इससे पता चलता है कि अगले वर्ष में अनुमानित मंदी पहले की आशंका से कम हो सकती है, जो दुनिया में सबसे बड़े उपभोक्ता में कच्चे तेल की मांग के लिए अच्छी खबर है। चीनी सरकार ने हाल ही में कोविड प्रतिबंधों को कम करने का फैसला किया है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप देश को कोविड मामलों में बड़ी वृद्धि का सामना करना पड़ा है, लेकिन कच्चे तेल की मांग पर असर स्पष्ट नहीं है। इस सप्ताह में कीमतों में तेजी के रुझान के साथ उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है और कीमतें 6200-6700 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। नवीनतम ईआईए रिपोर्ट के अनुसार गैस भंडार में अनुमान से कम भंडारण गिरावट के बाद नेचुरल गैस की कीमतें नौ महीने में सबसे कम हो गई हैं। दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में पहले के अनुमान से अधिक गर्म मौसम के पूर्वानुमान के कारण कीमतें कम हो गई हैं। इस सप्ताह में कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है और बाजार में तेजी पर बिकवाली बनी हुई है, जहां इसे 400 के करीब सपोर्ट और 480 के करीब रजिस्ट्रेंस का सामना करना पड़ सकता है।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें मिले-जुले रूझान के साथ साइडवेज कारोबार कर सकती हैं क्योंकि शीर्ष उपभोक्ता चीन में कोविड-19 संक्रमण बढ़ने से आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है जबकि कम होते भंडार और उत्पादन में संभावित कटौती के बीच आपूर्ति में कमी से काउंटर को समर्थन मिल सकता है। यद्यपि चीन की कठोर कोविड नीतियों से छूट के कारण नीतिगत उपायों और बेहतर औद्योगिक गतिविधियों की उम्मीद से कीमतों को मदद मिल सकती है, लेकिन देश में संक्रमण में भारी वृद्धि धातु बाजार पर समान रूप से दबाव डाल सकती है। रॉयटर्स पोल में अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जापानी कारखानों में उत्पादन नवंबर में लगातार तीसरे महीने गिरावट की संभावना है, क्योंकि कम होती वैश्विक मांग के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित उत्पादों का उत्पादन कम हो गया है। तांबे की कीमतें 685-720 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप ने अपने नवीनतम मासिक बुलेटिन में कहा कि विश्व स्तर पर रिफाईंड तांबे के बाजार में सितंबर में 85,000 टन की कमी की तुलना में अक्टूबर में 46,000 टन अधिशेष देखा गया। जिंक की कीमतें 255-275 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज के गोदामों में गैल्वनाइजिंग मेटल का स्टॉक कुल 36,525 टन है, जो इस सदी का सबसे कम है। लैंड की कीमतें 183-192 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतों के नरमी के रूझान के साथ 200-220 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। हाल के सप्ताहों में एलएमई एल्युमीनियम का स्टॉक कम हो रहा है और शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज के गोदामों में स्टॉक 92,373 टन पर है, जो कई वर्षों के निचले स्तर के करीब है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा कि उनका देश जून 2023 से एल्युमीनियम के मुख्य स्रोत बॉक्साइट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा। लेकिन इंटरनेशनल एल्युमीनियम इंस्टीट्यूट के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर में वैश्विक प्रारंभिक एल्युमीनियम उत्पादन साल दर साल 3.8% बढ़कर 5.611 मिलियन टन हो गया। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन्ग (जनवरी) की कीमतें 45500-47600 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

बाल्टिक ड्राई इंडेक्स.....वैश्विक अर्थव्यवस्था

बाल्टिक ड्राई इंडेक्स या 'ड्राई बल्क इंडेक्स' कमोडिटी शिपिंग लागत का एक पैमाना है। बीडीआई वैश्विक व्यापार के जीवन-रक्त लौह अयस्क, कोयले से लेकर अनाज तक सब कुछ के थोक माल वाहनों की कीमतों को ट्रैक करता है इससे बाल्टिक एक्सचेंज में समुद्री मार्ग से कच्चे माल का आवागमन करने वाली शिपिंग कंपनी को अंतिम रूप से इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता द्वारा चुकायी गई कीमत को मापा जाता है। बाल्टिक एक्सचेंज विश्व भर के ब्रोकरिंग शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट का मुख्य बाजार है। बीडीआई लंदन स्थित बाल्टिक एक्सचेंज द्वारा प्रतिदिन जारी किया जाता है। बाल्टिक एक्सचेंज न्यूयार्क के मर्केंटाइल एक्सचेंज के सामान है जहां कॉन्ट्रैक्ट के खरीददार और विक्रेता मौजूद होते हैं और ड्राई कार्गो समूहों की डिलीवरी के लिए वायदा समझौते होते हैं। बाल्टिक एक्सचेंज का स्वामित्व और संचालन सदस्य खरीददारों और विक्रेताओं द्वारा किया जाता है। एक्सचेंज विभिन्न कार्गो के लिए कई मार्गों की कीमतों को तय करता है और अपने इंडेक्स, बीडीआई, में समूचे शिपिंग मार्केट की स्थिति को संक्षेप में प्रकाशित करता है। बीडीआई से पता चलता है कि कच्चे मालों (जैसे- कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, चीनी और अन्य खाद्य वस्तुएं) को 23 समुद्री रास्तों से ढोने में कितनी लागत आई है।

बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की वर्तमान स्थिति


समग्र सूचकांक, जो सूखी थोक वस्तुओं को ले जाने वाली शिपिंग जहाजों के कैपेसाइज, पैनामैक्स, और सुप्रामैक्स में विभजित होता है, 1,723 के नजदीक कारोबार कारोबार कर रहा है जो 25 अक्टूबर के बाद से सबसे अधिक है और कैपेसाइज सेगमेंट में जुलाई के मध्य से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के कारण हुआ है। शिपब्रोकर इंटरमॉडल ने अपने साप्ताहिक नोट में कहा है कि कैपेसाइज अटलांटिक गतिविधि में ब्राजील, पश्चिम अफ्रीका और उत्तरी अटलांटिक, जो शीर्ष कार्गो की कमी का सामना कर रहे थे, से नए कार्गो को शामिल किए जाने से सप्ताह-दर-सप्ताह महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

पिछले दो वर्षों में विश्व स्तर पर व्यापार में उतार-चढ़ाव का असर शिपिंग कीमतों पर पड़ा है। मई 2020 के मध्य में बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 500 से नीचे था क्योंकि कोविड-19 का वैश्विक प्रसार शुरू हो गया था। एक साल बाद पिछले साल अक्टूबर में यह 5,647 के शिखर पर पहुंचने से पहले 3,000 का आंकड़ा पार कर लिया था। फरवरी के अंत में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो मई में 3,300 से अधिक अंक पार करने के बाद यह एक बार फिर चढ़ने से पहले लुढ़क गया। इसके बाद अगस्त के अंत में दरें 835 के निचले स्तर पर आ गईं और फिर मौजूदा स्तर पर वापस आ गईं।

यूक्रेन में युद्ध के प्रकोप का शुष्क थोक उद्योग पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे कई व्यापारों (ज्यादातर कोयला व्यापार) में फेरबदल शुरू हो गया और कुछ क्षेत्रों को व्यापार करना लगभग मुश्किल (विशेष रूप से काला सागर) हो गया। रूस और यूक्रेन शुष्क थोक वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक हैं और युद्ध ने दोनों देशों से निर्यात को काफी बाधित किया है। युद्ध के कारण यूरोपीय कोयले के आयात में भी उछाल दर्ज की गई जो युद्ध के बाद 35.5% या 15 मिलियन टन तक बढ़ गया और ज्यादातर कैपेसाइज सेगमेंट को फायदा हुआ।

इंडेक्स के घटक

जहाजों का वर्गीकरण	कुल भार वहन क्षमता	दुनिया के बेड़े का %	ड्राई बल्क ट्रेफिक का %
कैपेसाइज	150,000	10%	25%
पैनामैक्स	60,000-70,000	19%	25%
सुप्रामैक्स	48,000-60,000	37%	हैंडीसाइज का 25%
हैंडीसाइज	28,000	34%	सुप्रामैक्स का 25%



स्रोत: रॉयटर्स एवं एसएमसी रिसर्च

निवेशकों के लिए इंडेक्स का क्या अर्थ है

- यह इंडेक्स दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों के सबसे अग्रणी संकेतकों में से एक है। ड्राई बल्क में मुख्य रूप से ऐसी सामग्री होती है जो मध्यवर्ती या तैयार माल के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होती है, जैसे कंक्रीट, बिजली, स्टील, और भोजन। इसलिए इंडेक्स को भाविष्य के आर्थिक विकास और उत्पादन के कुशल आर्थिक संकेतक के रूप में भी देखा जाता है।
- बीडीआई से यह पता चलता है कि कोई कंपनी या देश कच्चे माल का तुरंत आयात करने के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है।
- जैसे-जैसे बीडीआई बढ़ता है, कच्चे माल की लागत भी बढ़ती जाती है। सामग्री की खरीद से जुड़ी इस लागत को उत्पादकों और रिफाइनर द्वारा मूल्य श्रृंखला के साथ पारित किया जाना चाहिए। अंत में, उपभोक्ता इन कच्चे मालों से प्राप्त माल के लिए उच्च कीमतों का भुगतान करेंगे।



एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएं और संबंधित सेवाएं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्बोरिटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूटेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोziशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।